

समाचार वाणी


खबर जो करें असर !

नाशिक | Friday, 25 September 2026

MCA की पढ़ाई के लिए कितना मिल सकता है एजुकेशन लोन ? जानिए कितनी होगी EMI और कैसे कर सकते हैं आसान भुगतान ।

Publisher

Published on 04 Jun 2025



MCA करने की सोच रहे हैं लेकिन फीस बनी है रुकावट ? जानिए कैसे बैंक दे रहे हैं लाखों रुपये तक का एजुकेशन लोन, EMI और भुगतान से जुड़ी पूरी जानकारी ।

अगर आप **MCA (मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन)** की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन फीस को लेकर चिंतित हैं, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है । भारत में अधिकतर बैंक और वित्तीय संस्थान आपको एजुकेशन लोन देने के लिए तैयार हैं । यह लोन आपके कोर्स की फीस, हॉस्टल खर्च और अन्य शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है ।

कितना मिल सकता है एजुकेशन लोन ?

यदि आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से **MCA** कर रहे हैं, तो:

१. **सरकारी बैंक** : 10 लाख रुपये तक लोन दे सकते हैं ।

प्राइवेट बैंक/NBFC: टॉप प्राइवेट कॉलेज के लिए 20-25 लाख रुपये तक लोन दे सकते हैं ।

२. **फीस का अनुमान** :

सरकारी कॉलेजों में फीस : ₹1.5 लाख से ₹3 लाख

प्राइवेट कॉलेजों में फीस : ₹4 लाख से ₹10 लाख

ब्याज दर और EMI कितनी होगी ?

१. ब्याज दर: 8% से 12% तक
२. मोरटोरियम पीरियड : कोर्स के दौरान EMI नहीं देनी होती
३. पढ़ाई पूरी होने के बाद 6-12 महीने के भीतर EMI शुरू होती है

EMI का उदाहरण :

१. ₹3 लाख लोन, 5 साल के लिए : ₹6,000-7,000/माह
२. ₹7-8 लाख लोन : ₹12,000-15,000/माह
३. 7 साल की अवधि लेने पर EMI और कम हो सकती है

किन दस्तावेजों की जरूरत होगी ?

१. कॉलेज का एडमिशन लेटर
२. फीस स्ट्रक्चर
३. पिछली शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट
४. आधार कार्ड, पैन कार्ड
५. को-साइगर (माता-पिता) की आय का प्रमाण

कैसे करे आवेदन ?

१. बैंक या NBFC की वेबसाइट पर जाएं
२. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
३. एडमिशन और फीस की पुष्टि होने पर लोन स्वीकृत हो सकता है
४. कुछ बैंक स्कॉलरशिप या मेरिट के आधार पर ब्याज में छूट भी देते हैं

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com